

प्रेस नोट
जनपद बस्ती

दिनांक:- 06.07.2021

**थाना सोनहा पुलिस द्वारा रुपये 39,500/- की लूट की झूठी सूचना का खुलासा कर
वादी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सोनहा पुलिस द्वारा थाना सोनहा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक-06.07.2021 को वादी अभियुक्त अमर कुमार पुत्र संजय कुमार कसौधन निवासी ग्राम बस्तियां थाना सोनहा जनपद बस्ती को लूट के रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा दिनांक:-02.07.2021 को सूचना दिया गया था कि पीएनबी बैंक भिरिया से ₹ 21,000/- निकाल कर अपने मोटरसाइकिल से घर आते समय करीब 12:25 बजे तेलियाडीह प्राइमरी स्कूल से करीब 100 मीटर आगे रोड पर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोक कर चाकू दिखाकर रुपये 39,500/- लूट ली गई थी, जिसकी सूचना पर थाना सोनहा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था | थाना सोनहा पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि अभियुक्त द्वारा झूठी खबर फैलाकर कर पूरा पैसा खुद रख लिया था जिसके पास से 31,000/- रुपये बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना सोनहा जनपद बस्ती पर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस को झूठी सूचना देने एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 145/2021 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया था जिसमें धारा 195 IPC की वृद्धि कि गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अमर कुमार पुत्र संजय कुमार कसौधन निवासी ग्राम बस्तियां थाना सोनहा जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. नगद रुपया 31,000/- वादी के घर से।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं Teen Patti App से आनलाइन जुआ खेलता था, जिसमें कुल रुपये 39,500/- रुपया हार गया था जिसकी भारपाई करने के लिए दिनांक-02.07.2021 को भिरिया बैंक से निकाले गये रुपये को अपने घर से करीब 100 मीटर पहले नहर के किनारे झाड़ी में छिपा दिया था और अपने परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए लूट की झूठी घटना बनाकर डायल UP-112 व थाना सोनहा पुलिस को लूट जैसी संगीन घटना की सूचना देकर मुकदमा दर्ज करायी थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम कृष्ण मिश्र थाना सोनहा जनपद बस्ती।
2. व0उ0नि0 उमाशंकर त्रिपाठी थाना सोनहा जनपद बस्ती।
3. उ0नि0 रामगती थाना सोनहा जनपद बस्ती।
4. उ0नि0 योगेश सिंह (प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स टीम)
5. हे0का0 ओम प्रकाश गुप्ता थाना सोनहा जनपद बस्ती।
6. हे0का0 महेन्द्र यादव, हे0का0 कुलदीप, का0 सर्वेस नायक, का0 रमेश एण्टी नारकोटिक्स टीम जनपद बस्ती।
7. का0 भगवादास यादव थाना सोनहा जनपद बस्ती।